

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जून 2016—ज्येष्ठ 25, शक 1938

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ-1-17-2016-स्था.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, मुख्य वास्तुविद् संगठन, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

“संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) इन नियमों के अधीन अभ्यर्थियों की भर्ती के लिये कोई साक्षात्कार नहीं होगा.”

No. F-1-17-2016-Est.-XIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Works Department, Chief Architect's Organisation, Class III (Non-Gazetted) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 1977, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, for sub-Rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) There shall be no interview for recruitment of candidates under these rules.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. सी. भट्ट, उपसचिव.